

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh G
c ch j jh J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
z S s h

raghu nandana-kEdAragauLa

In the kRti ‘raghunandana raghunandana’ – rAga kEdAragauLa, zrI tyAgarAja, sings praises of the Lord.

- P raghunandana raghunandana raghunandana rAma
C1 pADudu ninu vEDudu koniyADudu zrI rAma (raghu)
C2 kOriti ninu jERiti nanu dUrakumI rAma (raghu)
C3 EmO(y)ani nI manasuna EmarakE rAma (raghu)
C4 gati lEd(a)ni pati nIvani mati nE zaraN(a)NTi (raghu)
C5 jAlamu nIk(E)lanu nE tALanu zrI lOla (raghu)
C6 gaTTiga ninu paTTina tanak(i)TTi vetal(E)la (raghu)
C7 nIkE daya nIkE dama nIk(e)varE sATi (raghu)
C8 ninu telisina ghanulanu nE dina dinamu talatu (raghu)
C9 mullOkamul(a)lADina iTIE gati kAni (raghu)
C10 ilan(a)ntaTa kala vAnaku jaladhE gati kAni (raghu)
C11 guNamulalOn(a)Nig(u)NTE guNiyE gati kAni (raghu)
C12 enni vitamul(u)nnAnu ninnE cEravale (raghu)
C13 zrita mAnava hita-kara pAlita tyAgarAja (raghu)

Gist

O Lord raghunandana! O Lord rAma! O Lord enamoured by lakSmI! O Benefactor of those people who are dependent! O Lord who nourishes this tyAgarAja!

I shall sing about You; I shall entreat You and I shall extol You.
I desired You; I approached You; please do not rebuke me.
Don't be deceived in Your mind that there is something else.
As there is no other refuge, I sought refuge that You are my Lord.
Why this procrastination or deception by You? I cannot bear.
Why this suffering for me who has held on to You fast?
Yours indeed is the real compassion and real self-restraint; whoever is equal to You!

I shall remember every day those great persons who know You.
Even if one wanders about all the three Worlds, this (as mentioned below) indeed is the condition; (a) for the rains that pour everywhere in the world, the ocean is indeed the destination; (b) if one is within the confines of the three qualities (sattva, rajas, tamas), the Lord alone is the refuge; (c) no matter how many paths are there, all are bound to lead to You alone.

Word-by-word Meaning

P O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C1 O Lord zrI rAma! I shall sing (pADudu) about You (ninu); I shall entreat (vEDudu) You and I shall extol (koniyaDudu) You;
O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C2 O Lord rAma! I desired (kOriti) You (ninu); I approached (jEriti) You; please do not rebuke (dUrakumI) me (nanu);
O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C3 O Lord rAma! Don't be deceived (Emarake) in Your (nI) mind (manasuna) that (ani) there is something else (EmO) (EmOyani);
O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C4 As (ani) there is no (IEdu) (IEdani) other refuge (gati), in my mind (mati), I (nE) sought (aNTi) refuge (zaraNu) (zaraNaNTi) that (ani) You (nIvu) (nIvani) are my Lord (pati) (literally husband);
O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C5 O Lord enamoured (IOla) by lakSmI (zrI)! Why (Elanu) this procrastination or deception (jAlamu) by You (nIku) (literally to You) (nIkElanu)? I (nE) cannot bear (tALanu);
O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C6 Why (Ela) this (iTti) suffering (vetalu) (vetalEla) for me (tanaku) (tankiTti) who has held (paTTina) on to You (ninu) fast (gaTTiga)?
O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C7 Yours indeed (nIkE) is the real compassion (daya); Yours indeed (nIkE) is the real self-restraint (dama); whoever (evarE) is equal (sATi) to You (nIku) (nIkEvarE)!

O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C8 I (nE) shall remember (talatu) every day (dina dinamu) those great persons (ghanulanu) who know (telisina) You (ninu);

O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C9 – C12 Even if one wanders about (allADina) all the three Worlds (mullOkamulu) (mullOkamulallADina), this (iTIE) (as mentioned below) indeed (kAni) is the condition (gati);

for the rains (vAnaku) that pour (kala) (literally existing) everywhere (antaTa) in the world (ilanu) (ilanantaTa), the ocean only (jaladhE) is indeed (kAni) the destination (gati);

if one is within the confines (aNiguNTE) of the three qualities (gunamulalOne) (sattva, rajas, tamas) (guNamulalOnaNiguNTE), the Lord (guNi) (literally Virtuous) (guNiyE) alone (kAni) is the refuge (gati);

no matter how many (enni) paths (vitamulu) are there (unnAnu) (vitamulunnAnu), all are bound to lead (cEravale) (literally join) to You (ninnE) alone;

O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

C13 O Benefactor (hita-kara) of those people (mAnava) who are dependent (zrita)! O Lord who nourishes (pAlita) this tyAgarAja!

O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord raghunandana! O Lord rAma!

Note –

General – The order of the caraNas is as given in the book of TKG. However, in the book of TSV/AKG, caraNa 1 is given as anupallavi and caraNa 9 (mullOkamulalO) is not given in that book though the meaning of the caraNa is given therein. This needs to be checked. Any suggestions ???

C3 – EmarakE – In the book of TSV/AKG, this has been translated as ‘Don’t deceive’. ‘EmarakE’ derived from ‘Emaru’ means ‘to be deceived’; further in view of the words ‘nI madini’, ‘don’t deceive’ does not make sense.

C 11 - guNi (guNin) – guNa also means ‘strand’, ‘string’, ‘bow string’ etc. In the kRti, ‘nAda sudhA rasam’ – rAga Arabhi, zrI tyAgarAja states ‘dura naya dEzya tri-guNamu’ – the three guNas are the three strands of bow string of kOdaNda. Therefore, the Lord who is the wielder of kOdaNda – the Lord of tri-guNa – may be meant by ‘guNi’. In this regard, the following verse from zrImad-bhagavad-gItA, Chapter 14 refers –

sattvaM rajastama iti guNA: prakRtisambhavA: ||
nibadhanti mahAbAhO dEhE dEhinamavyayaM || 5 ||

“sattva, rajas, and tamas – these three guNAs, O mighty-armed, born of prakRti, bind fast in the body the indestructible embodied one.” (Translation by Swami Swarupananda)

The Lord is also called ‘sUtradhAri’ – the sUtra – strings may be taken to be three guNas.

C10 – vAnaku jaladhE gati – AkAzAt patitam tOyam sAgaram pratigaccati.

Devanagari

- प. रघुनन्दन रघुनन्दन रघुनन्दन राम
च1. पाडुदु निनु वेडुदु कोनि(या)डुदु श्रीराम (रघु)
च2. कोरिति निनु जेरिति ननु दूरकुमी राम (रघु)
च3. एमो(य)नि नी मनसुन एमरके राम (रघु)
च4. गति ले(द)नि पति नी(व)नि मति ने शर(ण)ण्टि (रघु)
च5. जालमु नी(के)लनु ने ताळनु श्री लोल (रघु)
च6. गट्टिग निनु पट्टिन तन(कि)ट्टि वेत(ले)ल (रघु)
च7. नीके दय नीके दम नी(के)वरे साटि (रघु)
च8. निनु तेलिसिन घनुलनु ने दिन दिनमु तलतु (रघु)
च9. मुल्लोकमु(ल)ल्लाडिन इट्टले गति कानि (रघु)
च10. इल(न)न्तट गल वानकु जलधे गति कानि (रघु)
च11. गुणमुल्लो(न)णि(गु)ण्टे गुणिये गति कानि (रघु)
च12. एन्नि वितमु(लु)न्नानु निन्ने चेरवले (रघु)
च13. श्रित मानव हित कर पालित त्यागराज (रघु)

English with Special Characters

- pa. raghunandana raghunandana raghunandana rāma
ca1. pāḍudu ninu vēḍudu koni(yā)ḍudu śrīrāma (raghu)
ca2. kōriti ninu jēriti nanu dūrakumī rāma (raghu)
ca3. ēmō(ya)ni nī manasuna ēmarakē rāma (raghu)
ca4. gati lē(da)ni pati nī(va)ni mati nē śara(ṇa)ṇṭi (raghu)
ca5. jālamu nī(kē)lanu nē tāḷanu śrī lōla (raghu)
ca6. gaṭṭiga ninu paṭṭina tana(ki)ṭṭi veta(lē)la (raghu)
ca7. nīkē daya nīkē dama nī(ke)varē sāṭi (raghu)
ca8. ninu telisina ghanulanu nē dina dinamu talatu (raghu)
ca9. mullōkamu(la)llāḍina iṭṭlē gati kāni (raghu)
ca10. ila(na)ntaṭa gala vānaku jaladhē gati kāni (raghu)

- ca11. guṇamulalō(na)ṇi(gu)ṇṭē guṇiyē gati kāni (raghu)
ca12. enni vitamu(lu)nnānu ninnē cēravale (raghu)
ca13. śrita mānava hita kara pālita tyāgarāja (raghu)

Telugu

- ప. రఘునన్దన రఘునన్దన రఘునన్దన రామ
చ1. పాడుదు నిను వేడుదు కొని(యా)డుదు శ్రీరామ (రఘు)
చ2. కోరితి నిను జేరితి నను దూరకుమీ రామ (రఘు)
చ3. ఏమో(య)ని నీ మనసున ఏమరకే రామ (రఘు)
చ4. గతి లే(ద)ని పతి నీ(వ)ని మతి నే శర(ణ)ణ్ణి (రఘు)
చ5. జాలము నీ(కే)లను నే తాళను శ్రీ లోల (రఘు)
చ6. గట్టిగ నిను పట్టిన తన(కి)ట్టి వెత(లే)ల (రఘు)
చ7. నీకే దయ నీకే దమ నీ(కె)వరే సాటి (రఘు)
చ8. నిను తెలిసిన ఘనులను నే దిన దినము తలతు (రఘు)
చ9. ముల్లోకము(ల)ల్లాడిన ఇట్లే గతి కాని (రఘు)
చ10. ఇల(న)న్దుట గల వానకు జలధే గతి కాని (రఘు)
చ11. గుణములలో(న)ణి(గు)ణ్ణే గుణియే గతి కాని (రఘు)
చ12. ఎన్ని వితము(లు)న్నాను నిన్నే చేరవలె (రఘు)
చ13. శ్రీత మానవ హిత కర పాలిత త్యాగరాజ (రఘు)

Tamil

- ప. రఘ⁴నన్ద³న రఘ⁴నన్ద³న రఘ⁴నన్ద³న రామ
స1. పాడుతు³ నిను వేడుతు³ కొనియాడుతు³ పునీరామ (రఘ⁴)
స2. కోరితి నిను జేరితి నను దూరకుమీ రామ (రఘ⁴)
స3. ఏమో(య)ని నీ మనసున ఏమరకే రామ (రఘ⁴)
స4. క³తి లే(త³)ని పతి నీవని మతి నే షర(ణ)ణ్ణి (రఘ⁴)
స5. జాలము నీ(కే)లను నే తాళను శ్రీ లోల (రఘ⁴)
స6. గట్టిగ నిను పట్టిన తన(కి)ట్టి వెత(లే)ల (రఘ⁴)
స7. నీకే దయ నీకే దమ నీ(కె)వరే సాటి (రఘ⁴)
స8. నిను తెలిసిన ఘనులను నే దిన దినము తలతు (రఘ⁴)
స9. ముల్లొకము(ల)ల్లాడిన ఇట్లే గతి కాని (రఘ⁴)
స10. ఇల(న)న్దట క³ల వానకు జలధే క³తి కాని (రఘ⁴)
స11. గుణములలో(న)ణి(గు)ణ్ణే గుణియే గతి కాని (రఘ⁴)
స12. ఎన్ని వితము(లు)న్నాను నిన్నే చేరవలె (రఘ⁴)
స13. ష్రిత మానవ హిత కర పాలిత త్యాగరాజ (రఘ⁴)

ఇరఘనన్దనా! ఇరఘనన్దనా! ఇరఘనన్దనా! ఇరామా!

1. பாடுவேன்; உன்னை வேண்டுவேன்; புகழ்ந்தேத்துவேன், இராமா!
2. கோரினேன்; உன்னையடைந்தேன்; என்னைக் கடியாதே, இராமா!
3. என்னவோயென உனது மனதில் ஏமாறவேண்டாம், இராமா!
4. கதியில்லையென, தலைவன் நீயென, உள்ளத்தினில் நான் புகலென்றேன்;
5. பிடிவாதம் உனக்கேன்; நான் தாளேன், இலக்குமியை விரும்புவோனே!
6. கெட்டியாக உன்னைப் பிடித்த எனக்கிந்த வேதனைகளேன்?
7. உனதே தயை; உனதே கட்டுப்பாடு; உனக்கீடெவரே!
8. உன்னையறிந்த மேலோரை நான் அனுதினமும் நினைப்பேன்;
- 9 - 12 மூவுலகில் அலைந்தாலும் இப்படியே (கீழ்க்கண்டபடி) கதியன்றோ!
புவியில் பெய்யும் மழைக்கெல்லாம் கடலே போக்கன்றோ!
குணங்களிலேயே கட்டுண்டிருந்தால் குணவானே கதியன்றோ!
எத்தனை வழிகளிலிருந்தாலும் உன்னையே யடையவேண்டுமன்றோ!
13. சார்ந்த மானவருக்கினியவனே! தியாகராசனைப் பேணுவோனே!
இரகுநந்தனா! இரகுநந்தனா! இரகுநந்தனா! இராமா!

குணவான் - இறைவன்

Kannada

- ಪ. ರಘುನನ್ನನ ರಘುನನ್ನನ ರಘುನನ್ನನ ರಾಮ
- ಚ೦. ಪಾಡುಡು ನಿನು ವೇಡುಡು ಕೊನಿ(ಯಾ)ಡುಡು ಶ್ರೀರಾಮ (ರಘು)
- ಚ೧. ಕೋರಿತಿ ನಿನು ಜೇರಿತಿ ನನು ದೂರಕುಮೀ ರಾಮ (ರಘು)
- ಚ೨. ಏಮೋ(ಯ)ನಿ ನೀ ಮನಸುನ ಏಮರಕೇ ರಾಮ (ರಘು)
- ಚ೩. ಗತಿ ಲೀ(ದ)ನಿ ಪತಿ ನೀ(ವ)ನಿ ಮತಿ ನೇ ಶರ(ಣ)ಣ್ಣಿ (ರಘು)
- ಚ೪. ಜಾಲಮು ನೀ(ಕೇ)ಲನು ನೇ ತಾಳನು ಶ್ರೀ ಲೋಲ (ರಘು)
- ಚ೫. ಗಟ್ಟಿಗ ನಿನು ಪಟ್ಟಿನ ತನ(ಕಿ)ಟ್ಟಿ ವೆತ(ಲೀ)ಲ (ರಘು)
- ಚ೬. ನೀಕೇ ದಯ ನೀಕೇ ದಮ ನೀ(ಕೆ)ವರೇ ಸಾಟಿ (ರಘು)
- ಚ೭. ನಿನು ತೆಲಿಸಿನ ಘನುಲನು ನೇ ದಿನ ದಿನಮು ತಲತು (ರಘು)
- ಚ೮. ಮುಲ್ಲೋಕಮು(ಲ)ಲ್ಲಾಡಿನ ಇಟ್ಟೇ ಗತಿ ಕಾನಿ (ರಘು)
- ಚ೯. ಇಲ(ನ)ನ್ನಟ ಗಲ ವಾನಕು ಜಲಧೀ ಗತಿ ಕಾನಿ (ರಘು)

চ১২. এল্লি বিতমু(লু)ল্লানু নিল্লে চেবরলে (ৰঘু)

চ১৩. শ্ৰিত মানৰ হিত কৰ পালিত অ্যাগৰাজ (ৰঘু)

Bengali

প. রঘুনন্দন রঘুনন্দন রঘুনন্দন রাম

চ১. পাডুদু নিনু বেডুদু কোনি(য়া)ডুদু শ্ৰীৰাম (ৰঘু)

চ২. কোৱিতি নিনু জেৱিতি ননু দূৱকুমী ৰাম (ৰঘু)

চ৩. এমো(য়ে)নি নী মনসুন এমৱকে ৰাম (ৰঘু)

চ৪. গতি লে(দে)নি পতি নী(বে)নি মতি নে শৱ(ণ)ণ্টি (ৰঘু)

চ৫. জালমু নী(কে)লনু নে তালনু শ্ৰী লোল (ৰঘু)

চ৬. গট্টিগ নিনু পট্টিন তন(কি)ট্টি বেত(লে)ল (ৰঘু)

চ৭. নীকে দয় নীকে দম নী(কে)বৱে সাটি (ৰঘু)

চ৮. নিনু তেলিসিন ঘনুলনু নে দিন দিনমু তলতু (ৰঘু)

চ৯. মুল্লোকমু(লে)ল্লাডিন ইট্ৰে গতি কানি (ৰঘু)

চ১০. ইল(ন)সুট গল বানকু জলধে গতি কানি (ৰঘু)

চ১১. গুণমুললো(ন)ণি(গু)ণ্টে গুণিয়ে গতি কানি (ৰঘু)

চ১২. এল্লি বিতমু(লু)ল্লানু নিল্লে চেবৱলে (ৰঘু)

চ১৩. শ্ৰিত মানব হিত কৰ পালিত অ্যাগৱাজ (ৰঘু)

Gujarati

પ. રઘુનન્દન રઘુનન્દન રઘુનન્દન રામ

ચ૧. પાડુદુ નિનુ વેડુદુ કોનિ(યા)ડુદુ શ্ৰીરામ (રઘુ)

ચ૨. કોৱિતિ નિનુ જૈવિતિ નનુ દૂ૱કુમી રામ (રઘુ)

ચ૩. અમો(ય)નિ ની મનસુન અમરકે રામ (રઘુ)

ચ૪. ગતિ લે(દે)નિ પતિ ની(વ)નિ મતિ ને શ૱(ણ)ણ્টি (રઘુ)

ચ૫. જાલમુ ની(કે)લનુ ને તાલનુ શ્ৰી લોલ (રઘુ)

ચ૬. ગટ્টিગ નિનુ પટ્টিન તન(કિ)ટ્টি વેત(લે)લ (રઘુ)

ચ૭. નીકે દય નીકે દમ ની(કે)વૈ સાટિ (રઘુ)

ચ૮. નિનુ તેલિસિન ઘનુલનુ ને દિન દિનમુ તલતુ (રઘુ)

ચ૯. મુલ્લોકમુ(લે)લ્લાડિન ઈટ્રે ગતિ કાનિ (રઘુ)

ચ૧૦. ઈલ(ન)સુટ ગલ વાનકુ જલધે ગતિ કાનિ (રઘુ)

୧୧୧. ଗୁଞ୍ଜାମୁଖ୍ୟୋ(କ)ଞ୍ଜା(ଗୁ)ଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜାଧି ଗତି ଜାନ୍ତି (୧୫)
 ୧୧୨. ଅଞ୍ଜି ଦିତ୍ତମୁ(କ୍ଷୁ)ଞ୍ଜାନ୍ତୁ ଞ୍ଜି ଧିରବର୍ତ୍ତ (୧୫)
 ୧୧୩. ଶ୍ରିତ ମାନବ ହିତ କର ପାଦିତ ଧ୍ୟାଗରାଞ୍ଜ (୧୫)

Oriya

- ପ. ରଘୁନନ୍ଦନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ
 ୧୧. ପାତୁଦୁ ନିନ୍ତୁ ଶ୍ରେତୁଦୁ କୋନି(ୟା)ତୁଦୁ ଶ୍ରୀରାମ (ରଘୁ)
 ୧୨. କୋରିତି ନିନ୍ତୁ ଜେରିତି ନନ୍ତୁ ଦୁରକୁମୀ ରାମ (ରଘୁ)
 ୧୩. ଏମୋ(ୟ)ନି ନୀ ମନସୁନ ଏମରକେ ରାମ (ରଘୁ)
 ୧୪. ଗତି ଲେ(ଦ)ନି ପତି ନୀ(ଞ୍ଜ)ନି ମତି ନେ ଶର(ଣ)କ୍ଷି (ରଘୁ)
 ୧୫. ଜାଲମୁ ନୀ(କେ)ଲନ୍ତୁ ନେ ତାଳନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଲୋଲ (ରଘୁ)
 ୧୬. ଗଞ୍ଜିଗ ନିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜିନ ତନ(କି)କ୍ଷି ଶ୍ରେତ(ଲେ)ଲ (ରଘୁ)
 ୧୭. ନୀକେ ଦୟ ନୀକେ ଦମ ନୀ(କେ)ଞ୍ଜରେ ସାତି (ରଘୁ)
 ୧୮. ନିନ୍ତୁ ତେଲିସିନ ଘନ୍ତୁଲନ୍ତୁ ନେ ଦିନ ଦିନମୁ ତଲତୁ (ରଘୁ)
 ୧୯. ମୁଲ୍ଲୋକମୁ(ଲ)ଲ୍ଲୁଡିନ ଇରେ ଗତି କାନି (ରଘୁ)
 ୧୨୦. ଇଲ(ନ)ତୁଟ ଗଲ ଶ୍ରୀନକୁ ଜଲଧେ ଗତି କାନି (ରଘୁ)
 ୧୨୧. ଗୁଣମୁଲଲୋ(ନ)ଶି(ଗୁ)କ୍ଷେ ଗୁଣିୟେ ଗତି କାନି (ରଘୁ)
 ୧୨୨. ଏନ୍ନି ଶ୍ରିତମୁ(ଲ)ନ୍ନାନୁ ନିନ୍ନେ ତେରଞ୍ଜଲେ (ରଘୁ)
 ୧୨୩. ଶ୍ରିତ ମାନଞ୍ଜ ହିତ କର ପାଲିତ ଧ୍ୟାଗରାଜ (ରଘୁ)

Punjabi

୫. ਰଞ୍ଜନନନନ ରଞ୍ଜନନନନ ରଞ୍ଜନନନନ ରାମ
 ୧୧. ପାତୁଦ ନିନ୍ତୁ ଦେତୁଦ କୋନି(ୟା)ତୁଦ ଶ୍ରୀରାମ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୨. କୋରିତି ନିନ୍ତୁ ଜେରିତି ନନ୍ତୁ ଦୁରକୁମୀ ରାମ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୩. ଏମୋ(ୟ)ନି ନୀ ମନସୁନ ଏମରକେ ରାମ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୪. ଗତି ଲେ(ଦ)ନି ପତି ନୀ(ଞ୍ଜ)ନି ମତି ନେ ଶର(ଟ)ଟିଟ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୫. ଜାଲମୁ ନୀ(କେ)ଲନ୍ତୁ ନେ ତାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଲୋଲ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୬. ଗଞ୍ଜିଗ ନିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜିନ ତନ(କି)କ୍ଷି ଶ୍ରେତ(ଲେ)ଲ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୭. ନୀକେ ଦୟ ନୀକେ ଦମ ନୀ(କେ)ଞ୍ଜରେ ସାତି (ରଞ୍ଜ)
 ୧୮. ନିନ୍ତୁ ତେଲିସିନ ଘନ୍ତୁଲନ୍ତୁ ନେ ଦିନ ଦିନମୁ ତଲତୁ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୯. ମୁଲ୍ଲୋକମୁ(ଲ)ଲ୍ଲୁଡିନ ଇରେ ଗତି କାନି (ରଞ୍ଜ)
 ୧୨୦. ଇଲ(ନ)ତୁଟ ଗଲ ଶ୍ରୀନକୁ ଜଲଧେ ଗତି କାନି (ରଞ୍ଜ)
 ୧୨୧. ଗୁଣମୁଲଲୋ(ନ)ଶି(ଗୁ)କ୍ଷେ ଗୁଣିୟେ ଗତି କାନି (ରଞ୍ଜ)
 ୧୨୨. ଏନ୍ନି ଶ୍ରିତମୁ(ଲ)ନ୍ନାନୁ ନିନ୍ନେ ତେରଞ୍ଜଲେ (ରଞ୍ଜ)
 ୧୨୩. ଶ୍ରିତ ମାନଞ୍ଜ ହିତ କର ପାଲିତ ଧ୍ୟାଗରାଜ (ରଞ୍ଜ)

- ਚ੭. ਨੀਕੇ ਦਯ ਨੀਕੇ ਦਮ ਨੀ(ਕੇ)ਵਰੇ ਸਾਟਿ (ਰਘੁ)
- ਚ੮. ਨਿਨੁ ਤੇਲਿਸਿਨ ਘਨੁਲਨੁ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਨਮੁ ਤਲਤੁ (ਰਘੁ)
- ਚ੯. ਮੁੱਲੋਕਮੁ(ਲ)ਲਲਾਡਿਨ ਇਟਲੇ ਗਤਿ ਕਾਨਿ (ਰਘੁ)
- ਚ੧੦. ਇਲ(ਨ)ਨਤਟ ਗਲ ਵਾਨਕੁ ਜਲਯੇ ਗਤਿ ਕਾਨਿ (ਰਘੁ)
- ਚ੧੧. ਗੁਣਮੁਲਲੋ(ਨ)ਟਿ(ਗੁ)ਣਟੇ ਗੁਣਿਯੇ ਗਤਿ ਕਾਨਿ (ਰਘੁ)
- ਚ੧੨. ਏਨਿ ਵਿਤਮੁ(ਲੁ)ਨਨਾਨੁ ਨਿੱਨੋ ਚੇਰਵਲੇ (ਰਘੁ)
- ਚ੧੩. ਸ਼੍ਰਿਤ ਮਾਨਵ ਹਿਤ ਕਰ ਪਾਲਿਤ ਤਯਾਰਾਜ (ਰਘੁ)